

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office: ° Plot No. 9, Institutional Area,

Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.) T:+91 124 4674500, 4674550

F: +91 124 4674599 W: www.jbmgroup.com

JBML/SE/BM/Q4/2023-24

Asst. Vice President, Listing Deptt.,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400 051

Scrip Code: JAYBARMARU

February 15, 2024

The Secretary, **BSE Limited**25th Floor

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai - 400 001

Scrip Code: **520066**

Sub: <u>Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements of Business Standard (Hindi) in Delhi Edition and Business Standard (English) in Delhi Edition dated February 15, 2024 for the publication of un-audited financial results of the Company (Standalone & Consolidated) for the 3rd quarter and nine months ended December 31, 2023 as approved by the Board of Directors in its meeting held on February 14, 2024.

This is for your information and record please.

CIN: L29130DL1987PLC027342 Email Id: ravi.arora@jbmgroup.com

Thanking you,

Yours faithfully

For Jay Bharat Maruti Limited

(Ravi Arora) Company Secretary M.No.: A37075

Encl.: As above

ANAND RATHI

Anand Rathi Global Finance Ltd Express Zone, A Wing,
10th Floor, Western Express Highway, Diagonally Opposite
Oberol Mall, Goregaon (E), Mumbai 400063.

(1) M/s Accurate Engg. Works (Borrower)
Address: -5-59 60, SITE 2, LONI ROAD INDUSTRIAL AREA MOHAN NAGAR GHAZIABAD-201007
(2) Mr. Igbal Halder (Co-Borrower), (3) Mr. Syed Saleem Halder Nagwi (Co-Borrower)
(4) Mrs. Raneez Fatma (Co-Borrower)
Address: -No. 3/161, Sector-2, Residential Colony, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad Uttar
Pradesh, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201005, India
SUB-REF: Loan Account No. APPL00005192
Redemption Notice of 30 days for redeem/sale of immovable assets under The Securitization And
Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with
proviso to rule 8 (5) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").
Dear SIr/Madam,

ear Sir/Madance to all earlier legal action initiated by Anand Rathi Global Finance Limited for the urpose of enforcing the secured asset for recovery of outstanding dues in exercise of power under security and the execution of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 do the Rule made there-under. You have failed to make payment towards the discharge of your abilities to the Loan Account On. APPLOGOUS 192, it is proposed to sell the below mentioned movable secured asset through E-Auction or Private Treaty under the provisions of the SARFAESI Act, Out is again brought to your notice that possession of the property will be taken once the Order is seceived from the Court.

received from the Court.

This notice is given to you the addressees in compliance of rule 8(6) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 towards the right to redemption under SARFAESI Act by paying the outstanding dues by you with cost and charges and expenses and further contractual interest till payment, due and Payable against your loan account at any time on or before 30 days from this notice as the present notice would end on expiry of 30 days from the date of receipt of this Notice and you are hereby informed and notified that the said property in question shall be sold by way of eauction or through private treaty it may be added that an amount of Rs. 1,09,09,888/- (One Crore Nine Lakhs Nine Thousand Eight Hundred Eighty Fight Only) is outstanding and payable along with further contractual interest till payment, due and payable against your loan account, which you may please take a note of.

cription of the property:- Property Address: Residential House No. 3/161, Total area asuring 139.40 Sq. meter, Situated Sector-2, Residential Colony, Rajender Nagar, oziabad Tehsil & District Ghaziabad, U. P.

भारतीय स्टेट बेंक State Bank of India Matrix Mall, Sector-4 Jawahar Nagar, Jaipur- 302004

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securit

iterest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12

read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Issued a Deman Notice Dated **05.12.2023** Calling upon the borrower **Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Pura**

Singh to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9,48,507.00 (Nine Lak' Forty Eight Thousand Five Hundred Seven Only) as on 05.12.2023 together with further

interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date o payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described.

herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub section (4) of the section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 or

this the **09th day of February of the year 2024.** The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India, RACPC-3, Ground Floor, Matrix Mail, Sector-4

Jawahar Nager, Jaipur for an amount Rs. 9,48,507.00 (Nine Lakh Forty Eight Thousand Five Hundred Seven Only) as on 05.12.2023 and future interest thereon at the contractua

rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Act, i

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the Equitable Mortgage of Residential Land situated at, 180, Gokul Enclave First, Doulatpura, Ajmer Road Jaipur, Rajasthan, having total measuring Area 111.11 Sq. Yards as per bank record, standing in the name of Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Puran Singh Bounded by:- North: Plot No. 181, South: Plot No. 179, East: Other Plot, Most Parcel 2018/14.

SILICON VALLEY INFOTECH LIMITED

CIN: L15311WB1993PLC061312 Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072

Email: silivally@gmail.com, website: www.siliconvallevinfo.co.in Phone No.: 033-40022880, Fax: 033-22379053

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2023

Authorized Officer, State Bank of Indi

Quarter Ended | Quarter Ended | Nine Months End

30.09.2023 (Unaudited)

(0.02

(5.46)

(5.46

(5.46)

(5.46)

(0.00)

(0.00)

31.12.2023 (Unaudited)

(6.97)

(6.97)

(6.97)

(6.97)

(0.01)

(Rs. In Lacs

31.12.2023 (Unaudited)

(0.02

(22.85

(22.85

(22.85

(22.85)

(0.02)

(0.02)

respect of time available, to redeem the secured assets.

West: Road 30' Wide Date: 09.02.2024 Place: Jaipur

Particulars

Total Income from Operations

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary

(after Exceptional and/or Extraordinary

items #)
Net Profit / (Loss) for the period after tax

Total Comprehensive Income for the period

as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year

Earnings Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations)

(after Exceptional and/or Extraordinary

Net Profit / (Loss) for the period before tax

SESSION NOTICE (For Immovable property/ies)

eas, The undersigned being the authorized officer of the State Bank of India under the

Authorised Officer (Anand Rathi Global Finance Limited)

East-House No. 3/195 West:-Road 30 Feet Wide North-House no. 3/162 South-House No. 3/160

विनांक 13.02.2024 नगर पालिक निगम बिलासपुर के ज़ोन क्र.08 अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से

| नि | निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (Online) निविदा आमन्नित की जाती हे : | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| ₽. | NIT #7. | टेंडर नं. | | अनुमानित सागत (रू. लाख में) | निविदा | निविदा डाउनलोर्ड/ सबमिट करने की अंतिम तिथि | | | | |
| 1 | 48 | 152847 | बंधवापारा से कोनी होते हुए नदी तक आर.सी.सी. नाला | 479.71 ਵਾਲ | प्रधम निविदा | 07-03-2024 | | | | |

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विझप्ति, निविदा वस्तावेज् व अन्य जानुकारी ई प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in से **डाउनलोड की जा सकती है** । Superintending Engineer Municipal Corporation Bilaspur (C.G.)

en City, Clean City, Dream City.

J. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.
VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in
Email: upstatesugarcorporation@gmail.com

Ref.No.: PC/SSC/Pipraich/1/1502

Invitation of EPC e-Bids for Engineering, Procurement and Construction (EPC) for Supply, Erection and Commissioning of 120 KLPD Distillery Plant with Incineration Boiler and Power Plant along with Operation and

Maintenance of Distillery at Pipraich, District Gorakhpur, (U.P.). UPSSCL annuls the process of Invitation of e-Bid for establishing aforesaid plant published on 04.01.2024

UPSSCL reinvites Bids, as a fresh, for Engineering, Procurement and Construction (EPC) e-bids for supply, erection and commissioning of 120 KLPD Distillery Plant with Incineration Boiler, Power Plant and related Civil works at Pipraich, District Gorakhpur, (U.P.) unit. The bidder will also operate and maintain Distillery for O3 (three) years from the date of start of commercial production as per the Bid Document. Bid Document containing details of scope of work, eligibility criteria, technical specifications, other terms & conditions and draft agreements etc. can be downloaded from www.upsugcorp.in or www.etender.up.nic.in. Bidders are advised to visit site to assess the actual conditions of the project site before submitting the Bid. Interested Bidders may submit their e-Bid upto 22.02.2024 till 05:00 PM on the e-tender website www.etender.up.nic.in as per conditions given in Tender form. e-Bids shall be opened on 23.02.2024 at 12:30 PM. Managing Director, UPSSCL reserves the right to reject any/all tenders without assigning any reason. MANAGING DIRECTOR

> FORM NO. INC-26 Advertisement to be Published in the Newspa [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] NOTICE BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR,

NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, DELHI In the matter of the Companies Act, 2013: Section 13(4);
-AND-

In the matter of the Rule 30(5)(a) of the Companies (incorporation) Rules, 2014

n the matter of ASHTAMII REALTY PRIVATE LIMITED (CIN: U70200DL2012PTC243684) a Comp incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at B-65, 3RD FLOOR, KH NO -418/3, DUGGAL COLONY KHANPUR, East Delhi-110062

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the

Notice is nereby given to the General Public ratt the Companips to make application to the Regional Director under Section 13 of the Companips Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 14th day of February, 2024 to enable the Company to change its Registered Office from the National Capital Territory of Delhi'r or State of Utter Pradeshr. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA - 21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint from or cause to be delivered or send by registered osc of his/her oblications supported by an afficient form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidav stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Norther Region, B - 2 Wing, 2** Floor, Pt. Deendayal Anyodaya Bhawan, 2** Floor, CGO Complex, New Dehil 110003 within 14 days from the date of publication of this Notice with a copy of the Applicant Compan t its Registered Office at the address mentioned above.

For and on behalf of the applicant FOR ASHTAMII REALTY PRIVATE LIMITED Direct [ASHUTOSH KUMAR SING

Place:- NEW DELHI Date:- 14TH FEBRUARY, 2024

FORM NO. 5

THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

(9/2-A, Panna Lai Road, Allahabad-211002, U.P.) (Area of Jurisdiction, Part of Uttar Pradesh)

Summons for filing Reply & Appearance by Publication

(Summon to defendant under section 19 (3), of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Acts, 1993 read with Rules 12 & 13 of the

Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993).

Original Application No. 866 of 2023

Yes Bank I tdApplicant Bank Pawan KumarDefendants

Pavan Kumar S/o Sri Chandra Sen R/o Flat No. 902 BT 1, 100 Feet Road, Taj Ganj ADA Heights, Agra -282001 (PAN-ANDPT0395F)

In the above noted application, you required to filed reply in Paper Book from in four sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly Authorised Agent or legal practitioner in the Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/ duly authorised agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 27.02.2024 at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in your absence.



Registrar Debts Recovery Tribunal Allahabad

DIN No: 05347211

Branch: SFS Mansarovar, Ja

Branch: SFS Mansarovar, Ja

POSSESSION NOTICE (For Immovable property) Branch: SFS Mansarovar, Jaipur

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the
Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, Securitzation and reconstruction of managed assets and enforcement or security interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 01.11.2023, calling upon the Borrower M/s AEMI's and its Proprieter Mr. Dheeral Salin (horrower) and Mrs Sushila Devi W/o Bajrang Lal Sen. (guarantor/mortgagor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 6,25,703.53/- (Rupses Six Lass Twenty Five Thousand Seven Hundred Three and Fifty Three Palsa Only) as on 31.10.2023 plus further interest w.e.f 01.11.2023 ereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses within 60 days from the date of

receipt of the said notice.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described harein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 12th day of February of the year 2024. The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount of Rs.6, 25, 703.53/- (Rupess Six Lacs Twenty Flve Thousand Seven Hundred Three and Fifty Three Paisa) as on 31.10.2023 plus further interest w.e.101.11.2023 thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses.

The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCHIPTION OF THE LIMITIVE PROPERTY AND ASSETS OF THE ACT OF THE Date:- 12.02.2024, Place: Jaipur

CMS FINVEST LIMITED

CIN: L67120WB1991PLC052782 Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072 E: cmsfinvestltd@gmail.com, W: www.cmsinfotech.co.in Phone: 91-33-4002 2880, Fax: 91-33-2237 9053 **EXTRACT OF LINAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR** THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2023

| SI. No. | Particulars | Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited) | Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited) |
|------------|--|--|--|--|
| 1 | Total Income from Operations | 14.60 | 16.50 | 49.67 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before | | | |
| | Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #) | 8.36 | 14.45 | 38.31 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax | 0.30 | 14,45 | 30.31 |
| _ | (after Exceptional and/or Extraordinary | | | |
| | items #) | 8.36 | 14.45 | 38.31 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax | | | |
| | (after Exceptional and/or Extraordinary items #) | 8.36 | 14.45 | 38.31 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period | 8.30 | 14.45 | 38.31 |
| " | [Comprising Profit / (Loss) for the period | | | |
| | (after tax) and Other Comprehensive | | | |
| | Income (after tax)] | 13.32 | 13.46 | 46.17 |
| 6 | Equity Share Capital | 1399.59 | 1399.59 | 1399.59 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | | | |
| | as shown in the Audited Balance Sheet of | | | |
| 8 | the previous year Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for | | | |
| ١ | continuing and discontinued operations) | | | |
| | 1. Basic : | 0.06 | 0.10 | 0.27 |
| | 2. Diluted: | 0.06 | 0.10 | 0.27 |
| No | *** | | | |

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed rith the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Result are available on the Stock Exchange website i.e. www.cse-india.com and on the Company

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in ccordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable. Place : Kolkata

Sd/- Surendra Kumar Jain, Managing Director DIN NO. 00166852 Date: 13th February, 2024

BLUE CHIP INDIA LIMITED

CIN: L65991WB1993PLC060597 Regd. Office: 10 Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072 E: bluechipindialimited@gmail.com, W: www.bluechipind.com Phone: 91-33-4002 2880, Fax: 91-33-2237 9053 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2023

| SI. No. | Particulars | Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited) | Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited) |
|------------|---|--|--|--|
| 1 | Total Income from Operations | 5.49 | 1.07 | 6.59 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary | 2.12 | (2.12) | (293.41) |
| | items #) | 2.12 | (2.12) | (293.41) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary | | ,, | ,, |
| | items #) | 2.12 | (2.12) | (293.41) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive | | 6,29 | 44.50 |
| 6 | Income (after tax)] Equity Share Capital | 5.55 1106.09 | 1106.09 | 41.60 1106.09 |
| 6 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | 1100.03 | 1100.05 | 1100.05 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs.2/- each) (for | | | |
| | continuing and discontinued operations) | | | |
| | 1. Basic : | 0.01 | 0.01 | (0.03) |
| | 2. Diluted: | 0.01 | 0.01 | (0.03) |

Note : a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosur nts) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Result are available on the Stock Exchanges website i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.co ww.cse-india.com and on the Company's website: www.bluechipind.com

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other re item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

c) # - Exceptional and/or Extraordinary Items adjusted in the Statement of Profit and Loss ordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

For BLUE CHIP INDIA LIMITED For BLUE CHIP INDIA SIGNAL Sd/- Arihant Jain, Managing Director DIN: 00174557 Date : 13th February, 2024

ATN INTERNATIONAL LIMITED CIN: L65993WB1983PLC080793

CIN: L65993WB1983PLC080793

Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072

mail: atninternationallimited@gmail.com, website: www.atninterna

Phone No. 033-40022880, Fax: 91-33-22379053

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2023

| SI. No. | Particulars | Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited) | Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited) | Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited) |
|---------------|---|--|--|--|
| 1 2 | Total Income from Operations | 2.84 | 7.04 | 13.93 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary | (5.67) | (0.91) | (22.02) |
| | items#) | (5.67) | (0.91) | (22.02) |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary | (0.0.7 | (4.4.2) | (==:/ |
| | items #} | (5.67) | (0.91) | (22.02) |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive | (5.67) | (0.00) | (22.02) |
| 6 | Income (after tax)] Equity Share Capital | (5.67) 1578.00 | (0.91) 1578.00 | (22.02) 1578.00 |
| 6 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | 1570.00 | 1375.50 | 1370.00 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs.4/- each) (for continuing and discontinued operations) | | | |
| | 1. Basic: | (1.01) | (0.01) | (1.06) |
| | 2. Diluted: | (1.01) | (0.01) | (1.06) |
| $\overline{}$ | | | | |

Note : a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.nseindia.com www.bseindia.com and www.cse-india.com and on the Company's website

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financia Item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss

accordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable. hever is applicable. By order of the Board For ATN INTERNATIONAL LIMITED Sd/- Santosh Kumar Jain, Managing Director DIN NO. 00174235 Date: 12th February, 2024

DHANLAXMI COTEX LIMITED

CIN: L51100MH1987PLC042280 Regd. Off: 285, 2nd Floor, Jhawar House, Princess Street, Mumb PHONE: 022-4976 4268 | Website: www.dcl.net.in E-mail: dcotex1987@gmail.com / accounts@dcl.net.in

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and

| nine months ended 31.12.2023 | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------|--|--|--|--|
| BSE Code: 512485 | | (Rs. | In Lakhs ex | cept EPS) | | | | |
| | Quarter | Quarter | Nine | Year | | | | |
| Particulars | Ended | Ended | Month | Ended | | | | |
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Ended 31.12.2023 | 31.03.2023 | | | | |
| | (UnAudited) | (UnAudited) | (UnAudited) | (Audited) | | | | |
| Total income from operations/other revenue | 441.59 | 440.26 | 2,487.97 | 2,531.80 | | | | |
| Net Profit / (Loss) | | | | | | | | |
| (before tax and/or extraordinary items) | 120.25 | (8.36) | 385.27 | 35.60 | | | | |
| Net Profit / (Loss) Before tax | | ` ′ | | | | | | |
| (after extraordinary items) | 120.25 | (8.36) | 385.27 | 35.60 | | | | |
| Net Profit / (Loss) for the period | | | | | | | | |
| after tax (after Extraordinary items) | 91.96 | (9.32) | 300.34 | 23.69 | | | | |
| Other comprehensive income/(loss) | 260.87 | 318.61 | 1,309.05 | 153.14 | | | | |
| Total comprehensive income/(loss) | | | | | | | | |
| for the period | 352.83 | 309.29 | 1,609.39 | 176.83 | | | | |
| Equity Share Capital | | | | | | | | |
| (Face Value of the shares Rs 10/-) | 487.14 | 487.14 | 487.14 | 487.14 | | | | |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve as | | | | | | | | |
| shown in the Balance Sheet of previous year) | - | - | - | 4,450.51 | | | | |
| Earnings Per Share (before extraordinary | | | | | | | | |
| items) (of Rs 10/- each) | | | | | | | | |
| Basic : | 1.89 | (0.19) | 6.17 | 0.49 | | | | |
| Diluted: | 1.89 | (0.19) | 6.17 | 0.49 | | | | |
| Earnings Per Share (after extraordinary | | | | | | | | |
| items) (of Rs 10 /- each) | | | | | | | | |

Notes: The Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2023 were reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 14th February, 2024.

Basic

iluted

Place · Mumbai

1.89

1.89

(0.19)

6.17

0.49

The Limited Review of the above result for the quarter and nine months ended 31st December, 2023 has been carried out by the Auditor in accordance with Regulation 33 of the SEBI (LODR), Regulation, 2015. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting

Standards) Rules, 2015 (IND-AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable begining from April, 2017.

The prior period's figures have been regrouped or reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

To have better control and evaluation of cost efficiency, the Board of Directors of Company has decided to report the results as Fabrics, Share Trading, Steel Trading & Other Income

The above is an extract of the detailed format of quarterly ended Financial Results filet with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended 31.12.2023 Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.dcl.net.in).

For Dhanlaxmi Cotex Limited Mahesh S. Jhawar (Whole Time Director) DIN: 00002908

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive ncome (after tax)] **Equity Share Capital** Reserves (excluding Revaluation Reserve)

1. Basic :

2. Diluted

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results file with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure nents) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Result are available on the Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com and www.cs ndia.com and on the Company's website: www.siliconvalleyinfo.co.in

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financia tem(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss i hichever is applicable. By order of the Board For SILICON VALLEY INFOTECH LTD Sd/- SANTOSH KUMAR JAIN, Managing Director cordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

Date: 13th February, 2024



HINDUSTAN TIN WORKS LIMITED

REGD OFFICE: 426. DLFTOWER - A. JASOLA, NEW DELHI - 110025 www.hindustantin.biz

Contact No.: 011-49998888, Fax: 011-49998822

Shaping a canvironment friendly future

| SCRIP CODE: 530315 | CIN: L27109DL1958PLC00 |
|--------------------|------------------------|
| | (# to |

| | Q | UARTER END | D | NINE MONT | THS ENDED | YEAR ENDED | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| Particulars | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.202 | |
| | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited | |
| TOTAL INCOME FROM OPERATIONS | 9803.90 | 11629.46 | 8172.96 | 33158.22 | 38356.66 | 46462.0 | |
| NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE PERIOD (BEFORE TAX, EXCEPTIONAL AND/ OR EXTRAORDINARY ITEMS) | 715.34 | 858.20 | 496.98 | 2110.72 | 1972.27 | 2286.4 | |
| NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE PERIOD BEFORE TAX (AFTER EXCEPTIONAL AND/ OR EXTRAORDINARY ITEMS) | 715.34 | 858.20 | 496.98 | 2110.72 | 1972.27 | 2286. | |
| NET PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD AFTER TAX (AFTER EXCEPTIONAL AND/OR EXTRAORDINARY ITEMS) | 532.28 | 644.24 | 263.01 | 1401.67 | 1249.21 | 1649. | |
| TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD [COMPRISING PROFIT/ (LOSS) FOR THE PERIOD (AFTER TAX) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (AFTER TAX) | 537.51 | 649.00 | 280.76 | 1380.28 | 1270.58 | 1173 | |
| EQUITY SHARE CAPITAL | 1039.97 | 1039.97 | 1039.97 | 1039.97 | 1039.97 | 1039. | |
| RESERVES EXCLUDING REVALUATION RESERVES | | | | | | 17881 | |
| EARNINGS PER SHARE (OF ₹10/- EACH) (FOR CONTINUING AND DISCONTINUED OPERATIONS) (BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS) (In ₹) | | | | | | | |
| BASIC | 5.17 | 6.24 | 2.70 | 13.27 | 12.22 | 11 | |

DILUTED NOTES:

The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at its meeting held on


6.24

- 14th February 2024. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. $\underline{www.bseindia.com}, and on Company's website i.e. \underline{www.hindustantin.biz}.$
- The Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015

Place: New Delhi Date: 14th February, 2024

Hundreds of Products... One Can!

Managing Director



JAY BHARAT MARUTI LIMITED Read. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019

JBM 🗗

Phone No. 011-26427104; Fax 011-26427100 Website: www.jbmgroup.com CIN: L29130DL1987PLC027342

STATEMENT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2023

| | | | | | | | (Rs. in Lakhs) | |
|------------|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | STANDALONI | | CONSOLIDATED | | | |
| SI. No. | Particulars | Quarter Ended 31/12/2023 | Nine Months Ended 31/12/2023 | Quarter Ended 31/12/2022 | Quarter Ended 31/12/2023 | Nine Months Ended 31/12/2023 | Quarter Ended 31/12/2022 | |
| 1. | Total Income from operations | 54,843.01 | 1,69,577.17 | 53,606.65 | 54,843.01 | 1,69,577.17 | 53,606.65 | |
| 2. | Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,002.47 | 3,113.69 | 1,060.79 | 1,032.89 | 3,216.25 | 1,071.54 | |
| 3. | Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 1,002.47 | 3,113.69 | 1,060.79 | 1,032.89 | 3,216.25 | 1,071.54 | |
| 4. | Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 650.26 | 2,023.92 | 663.26 | 671.52 | 2,098.45 | 670.15 | |
| 5. | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income | | | | | | | |
| | (after Tax)] | 645.69 | 2,250.33 | 614.62 | 666.71 | 2,324.15 | 621.29 | |
| 6. | Equity share capital | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year | 48,499.38 | 48,499.38 | 45,170.38 | 48,644.17 | 48,644.17 | 45,262.16 | |
| 8 | Earning per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised) (For continuing and discontinued operations) Note-(b) | | | | | | | |
| | a) Basic | 0.60 | 1.87 | 0.61 | 0.62 | 1.94 | 0.62 | |
| | b) Diluted | 0.60 | 1.87 | 0.61 | 0.62 | 1.94 | 0.62 | |

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s)

www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website www.jbmgroup.com The Board of Directors of the Company in their meeting held on 08th August, 2023, recommended the sub-division of existing equity share having face value of Rs. 5/- eacl fully paid up into equity share having face value of Rs. 2/- each fully paid up. The above sub-division has been approved by the shareholders of the Company in their annual

general meeting held on 16th September, 2023. Pursuant to split of shares the equity shares of the Company is increased from 4,33,00,000/- equity shares to 10,82,50,000/- equity shares of face value Rs 2/- each. The basic and diluted EPS for the prior periods of standalone and consolidated financial statements have been restated considering the face value of Rs. 2/- each in accordance with Ind AS 33 "Earning per Share".

S. K. ARYA Dated :- 14th February, 2024 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

FOR JAY BHARAT MARUTI LIMITED



कुल आय

3.

अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाभ

अवधि हेत् कर पूर्व शुद्ध लाभ

अवधि हेतु कर पश्चात शुद्ध लाभ

अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु

लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय

अन्य इक्विटी, जैसाकि अंकेक्षित तुलनपत्र में

दर्शाया गया है (पुनरमूल्यन संचेय छोड़कर)

2023 ("रेकार्ड तिथि") को सदस्यों की पंजिका में रेकार्डबद्ध हैं।

पूर्व तिमाहियों / वर्ष में प्रकाशित अनुसार

पूर्व तिमाहियों / वर्ष में प्रकाशित अनुसार

समामेलन के प्रभाव के पश्चात पूर्नोर्वेवरणकृत

समामेलन के प्रभाव के पश्चात पुनर्विवरणकृत

(अपवाद मदों के पश्चात)

(अपवाद मदों के पश्चात)

(कर पश्चात) सम्मिलित हैं।

(अंकित मूल्य रू. 1/- प्रति शेयर)

(अंकित मूल्य रू. 1/- प्रति शेयर)

(तिमाही के लिए वार्षिककृत नहीं)

प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(क) मल

अनुसार है।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 14 फरवरी, 2024

प्रचालनों से राजस्व

(ख) तनुकृत

(अपवाद मदों से पूर्व)

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1) अंतर्गत कम्बा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1) अंतर्गत कम्बाति कम्बाति कम्बाति कम्बाति स्वाति कमित्र क्षाति स्वाति कमित्र क्षाति कष्ति क्षाति कष्ति क्षाति कष्ति क्षाति कष्ति क्षाति कष्ति क्षाति कष्ति कष्त

कर लिया है। केर लिया है। विशेष रूप से कर्जवारों और आम जनता को एतद्धारा सावधान किया जाता है कि ये संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न कर और संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन बकाया राशि और उस पर ब्याज के साथ **सैटिन हाउसिंग फाड़में**स लिमिटेड के अधीन होगा।

अचल परिसंपत्ति का विवरण: प्लॉट सं. 73, मापक क्षेत्र 70 वर्ग गज, खाता सं. 47 में से, खसरा सं. 47, स्थित श्याम एन्वलेव, ग्राम अमका, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर उ. प्र., सीमांकन निम्न प्रकार : पूर्व: प्लॉट सं. 85, पश्चिम : 18 फुट सड़ क, उत्तर : प्लॉट सं. 74, दक्षिण: प्लॉट सं. 72

प्राधिकत अधिकारी . सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्थान : गुरुग्राम, दिनांक : 14.02.2024

| ÚKRERA) | |
|--------------|--|
| THE ! | |
| पत्रांकः 136 | |

JTEKT

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (CIN-L29113DL1984PLC018415)

पंजी. कार्यालय : यूजीएफ-6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001.

फोन नंबर : 011-23311924, 23327205; ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: www.jtekt.co.in

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

31.12.2023

अनंकेक्षित

55,346.08

3,109.60

3,109.60

2,375.29

2.352.77

2,444.80

0.97

0.97

ऑफ कम्पनीज के पास 01 जनवरी, 2024 को प्रस्तुत की जा चुकी है और स्कीम प्रभावी हो चुकी है। स्कीम की नियत तिथि 01 अप्रैल, 2022 है।

इसके अतिरिक्त, समामेलन के कारण, कम्पनी द्वारा 31.12.2023 को समाप्त अवधि हेतू समेकित परिणाम उपलब्ध नहीं कराए गए हैं

धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक ('IndAS') की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

तिमाही समाप्त

30.09.2023

अनंकेक्षित

पुनर्विवरणकन

नोट 2 देखें

58,607.02

4,156.79

4,156.79

3,015.52

2.985.11

2,444.80

1.23

1.23

े 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उपरोक्त विवरण अंकेक्षण समिति द्वारा पुनरीक्षित किया गया था तथा निदेशक

मंडल द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2024 को आयोजित उसकी बैठक में अनुमोदित किया गया था। उक्त परिणाम सांविधिक अंकेक्षकों की सीमित पुनरीक्षण रिपोर्ट सहित

बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') वेबसाइट (<u>URL:www.bseindia.com</u>), नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लिमिटेड ([']एनएसई') वेबसाइट

(URL:www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (URL:www.itekt.co.in) पर उपलब्ध हैं । पृथक्कृत और समेकित वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड का जेटेक्ट पयुजी किको ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड और उनके संबंधित

शेयरधारकों के साथ समामेलन की रकीम ("स्कीम") इसके आदेश दिनांकित 12 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से अनुमोदित कर दी है। आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार

परिणामतः, जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड ने जेटेक्ट पयजी किको ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों को रू. 10/- प्रत्येक के हर 100 इक्विटी शेयर्स के लिए

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेंड पूर्ण प्रदत्त शेयरों के रूप में के रू. 1/- प्रत्येक के 200 इक्विटी शेयर क्रेडिट किए हैं, सिवाय जेटेक्ट इंडिया लिमिटेंड, जिनके नाम 27 दिसम्बर,

समामेलन का प्रभाव ('Ind AS') – "व्यवसाय संयोजन" के परिशिष्ट 'सी' के अनुसार सामान्य नियंत्रण संव्यवहार के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। तदनुसार,

31.12.2023 को समाप्त तिमाही के साथ संबंधित राशियों में व्यवसाय संयोजन का प्रभाव सम्मिलित है और 30.09.2023, 31.12.2022 को समाप्त संगत तिमाही हेतू

संगत राशियां, 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की वर्षाद्यतन अवधि हेतु और 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु परिणाम उपरोक्तानुसार समामेलन के प्रभाव के

मान्यता प्रदान करने के पश्चात पुनर्व्यक्त किए गए हैं। पूर्व अवधियों में प्रकाशित राजस्व तथा लाभ एवं हानि की राशियों पर समामेलन का प्रभाव नीचे दर्शाए गए

(अनंकेक्षित)

59,249.92

58.388.15

2.971.03

3,015.52

30.09.2023 31.12.2022

(अनंकेक्षित)

47,738.25

47,102,59

1.340.49

1,529.15

31.12.2022

अनंकेक्षित

पनर्विवरणकत

नोट 2 देखें

47,281.09

1,996.47

1,996.47

1,529.15

1,519.40

2,444.80

0.63

0.63

उत्तराखण्ड भसम्पदा नियामक प्राधिकरण (Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority) 5वां फ्लोर, राजीव गांधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड तूरभाषः 0135-2710348, Email: ukrera2017@gmail.com

(रू. लाख में, सिवाय प्रति शेयर अर्जन डेटा

अनंकेक्षित

(पुनर्विवरणकृत

नोट 2 देखें

1.52.035.74

8,553.03

8,227.02

6,093.70

6,064.43

2,444.80

2.49

वर्ष समाप्त

31.03.2023

अंकेक्षित

(पुनर्विवरणकृत)

नोट 2 देखें

2,05,249.30

11,743.64

11,417.63

8,711.67

8,644.26

2,444.80

70,927.10

3.56

3.56

समाप्त

31.03.2023

(अंकेक्षित)

2.07,323.53

2.04.393.06

7.979.20

8.711.67

हितोशी मोगी

कृते एवं हिते निदेशक मंडल

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नौ माद्र समाप्त

31 12 2023 31 12 2022

अनंकेक्षित

1,62,062.13

9,020.78

9,760.04

7,256.76

7,186.98

2,444.80

2.97

समाप्त

31.12.2022

(अनंकेक्षित)

1,53,606.13

1.51.374.71

5.590.05

6.093.70

| | | ., | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| - | नोटिस | | | | | |
| 1 | शिकायत वाद विवरण | प्रतिवादीगण | | | | |
| 1 | 58/2023-(श्रीमती गुरमीत कौर बनाम | मेसर्स अरूण देव बिल्डर्स लिमिटेड, एफ-1211, चितरंजन पार्क, | | | | |
| 1 | मेसर्स अरूण देव बिल्डर्स लिमिटेड) | नई दिल्ली-110019 एवं बी-8 राजू पार्क, खानपुर, नई दिल्ली, | | | | |
| l | 59/2023- (श्री रविन्द्र गांधी बनाम मेसर्स | साउथ दिल्ली-110062 | | | | |
| | अरुण देव बिल्डिसं लिमिटेड) | | | | | |
| 1 | 60/2023- (श्री रविन्द्र गांधी बनाम मेसर्स | 1. मेसर्स अरुण देव बिल्डर्स लिमिटेड, | | | | |
| | अरुण देव बिल्डिसं लिमिटेड एवं अन्य) | एफ-1211, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019 एवं बी-8 | | | | |
| 1 | | राजू पार्क, खानपुर, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली-110062 | | | | |
| | | 2. मेसर्स पी.बी.एन.के. डेवलपर्स प्राoलि० | | | | |
| 1 | | एफ-1186, बेसमेंट, सी.आर. पार्क, नई दिल्ली। | | | | |
| - | | 3. श्री प्रवीण भारद्वाज (निदेशक), | | | | |
| 1 | | 4. श्री श्याम भारद्वाज (निदेशक), | | | | |
| · | | मेसर्स पी.बी.एन.के. डेवलपर्स प्रा.लि., एफ-1186, बेसमेंट, | | | | |
| ŀ | | सी.आर. पार्क, नई दिल्ली-110019 एवं बी-8 राजू पार्क, | | | | |
| | | खानपुर, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली-110062 | | | | |
| 1 | संदर्भित शिकायत वादों की सुनवाई में वर्णित प्रा | तेवादीगण निरंतर अनुपस्थित चले जा रहे हैं। सूचित करना है कि आगामी | | | | |
| 1 | | प्राक्तिरण में नियत हैं, जिसमें उपस्थित न होने की दशा में प्रतिवादीगणों का | | | | |
| | पक्ष रखने का अवसर समाप्त कर दिया जायेगा ए | वं एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। | | | | |
| 1 | I | | | | | |

The General Public is hereby informed that my clients Mr. Praveen Chandra Singhal S/o Late Shri Rajendra

PUBLIC NOTICE

Kumar Agarwal and his wife Smt. Archana Singha hoth R/o E-7, Shalimar Imperial Appts, 13 Gokhale Marg, Lucknow 226001 have severed all their relations with their son Mr. Anshul Agarwal, and daughter-in-law Mrs. Swati Gupta due to their misconduct. Both of my above-named clients have also disowned and debarred their said son along with his wife from all their movable and immovable properties and social relationships of the society. Any person dealing with them will do so at his/her own risk and costs and my clients shall not be responsible for the same under any circumstances

Ved Vvas Tripathi(Advocate Enrolment no.:-UP07984/2010

PUBLIC NOTICE

Plot/Property No. DPT- 246 was registered in the name of Mrs. Rajeshwari Singh Wo Late Tejpal Verma & Sidharth Singh S/o Veer Singh R/o A-1/001, Eldeco Golf View Apartment, BRS-05, P-2, Omega-1, Greater Noida-201308, Mrs. Rajeshwari Singh expired on 24,05,2021 leaving behind a registered Will in favour of Mrs. Chanchal Singh and accordingly the name of Sidharth Singh S/o Veer Singh & Chanchal Singh W/o Sidharth Singh is being Chanchal Singh W/o Sidharth Singh is being noted in DLF's record in respect of the captioned Office. If anybody has any objection to this, she may approach M/s DLF Ltd or the

ndersigned within 21 days of publication of Shashi Kant Gupta Chamber No.D-209, Karkardooma Courts Delhi-110032, Mob. 9999656267

एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 18, पूसा रोड, पहली मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली CIN:L28122DL1983PLC017141 वेबसाइट: www.amdindustries.com, ईमेल: Investor@amdindustries.com

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखित वित्तीय परिणामों का सार

(प्रति शेयर डैटा को छोडकर रुपये लाखों में समाप्त तिमाही समाप्त नौमाही समाप्त वर्ष विवरण 31 दिसं. 2023 30 सितं. 2023 31 दिसं. 2022 (अनखंकेक्षित) (अनखंकेक्षित) (अनखंकेक्षित) 1 दिसं. 2023 31 दिसं. 2022 31 मार्च, 2023 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) परिचालनों से कुल आय 4116.52 6031.79 4974.44 20281.96 23616.98 35000.18 अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर 1541.15 -161.28 -178.0 156.66 2630.28 तथा असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ -161.28 -178.05158.66 -228.60 1541.15 2630.28 (हानि) (असाधारण मदों के बाद) कर तथा असाधारण मदों के बाद की -122.96 -132.56 111.05 -176.29 1119.24 1920.61 अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (इस अवधि -128.13 -132.15 110.92 -177.37 1113.69 1911.85 हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से षामिल) इक्विटी शेयर पूंजी 1916.6749 1916.6749 1916.6749 1916.6749 1916.6749 1916.6749 आय प्रति शेयर (रु. 10 / – प्रति का) (क) मूल (रु.): -0.64 -0.69 0.58 10.02 (ख) तरल (रु.) -0.69 -0.92 -0.64 0.58 5.84 10.02

उपरोक्त अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे, जिसकी लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्ष की गई तथा 13 फरवरी 2024 को आयोजित बैठक में निवेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। वैधानिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचैंज तथा भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में दाखिल की जा रही है।

2. उपरोक्त सेबी (सचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 31 दिसंबर. 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैर—लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। पूर्ण सांविधिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट www.amdindustries.com के निवेशक अनुमाग के तहत तथा www.bseindia.com तथा www.nseindia.com के कॉर्पोरेट अनुमाग में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध है । बोर्ड के आदेश से

एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

स्थान: नर्ड दिल्ली तिथिः 13.02.2024

प्रबंध निदेशक DIN: 00238784

(रुपये लाखों में)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिक दल भारत जन चिकित्सा पार्टी से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। यह पार्टी कार्यालय क 113, कामराज नगर वेस्ट, रेडियार थोट्टम, उधंगराई, जिला - कृष्णागिरी, तमिलनाडु-635207* में स्थित है। इस दल के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की थारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में राजस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है - पार्टी के पदाधिकारी के नाम और पता (जैसा ऊपर उल्लिखित

है)* नीचे दिए गए हैं। राष्ट्रध्यक्ष:- वेंकटेश राष्ट्रध्यक्ष:- वेंकटेश

राष्ट्रकोषाध्यक्ष:-निशाश्वर्म यदि किसी को भारत जन चिकित्सा पार्टी के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इसके कारणो सहित सचिव राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड नर्ड दिल्ली 110001 को इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के

FORM NO. URC - 2 ध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार] इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, दिल्ली में रजिस्टार को एक आवेदन किया गया है कि M/s Global Savian

Consulting LLP को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI का भाग I के तहत एक कंपनी व तहत पंजीकृत किया जा सकता है। कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: अ।उटसोर्सिंग व्यवसाय और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं. सॉफ्टवेयर विकास और एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं द्वारा सामान्य रूप . से दी जाने वाली परामर्श, सॉफ्टवेयर समाधान

3. प्रस्तावित कंपनी के डाफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी का D 1/1204, Kh. No. 33/9, गली नंबर 30, हर्ष वेहार दिल्ली 110093 स्थित कार्यालय । नेरीक्षण किया जा सकता है।

और सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय को जारी

4. कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के संविधान में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की <mark>संभा</mark>वना है, वह या तो एमसीए-21 पोर्टल v.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर् ग्रस्थिल करके या वितरित करने का कारण बता सकता है या CRC, IICA, Plot No. 6,7 & 8, Sector 5, IMT Manesar, Haryana 122052 वे पते पर रजिस्टार ऑफ कंपनीज, नई दिल्ली क अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय D1/1204, Kh No. 33/9. गली नंबर 30, हर्ष विहार, दिल्ली110093 पंजीकृत डाक

आवेदक का नाम 1. श्री अंकश 2. श्रीमती सरोज तिवारी दिनांक 15th Feb. 2024

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

्रि.प.सं. एल29222डीएल1976पीएलसी008129) पंजीकृत कार्यालय : कोर-2, पहली मंजिल, "स्कोप मीनारट नं.२ए व 2बी, लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र, दिल्ली-110 091 प्रधान कार्यालय : "निकर्षण सदन", एच.बी.कोलनी भेन रोड, सीतम्मधारा, विशाखपट्नम -530 022 ई-मेल: kalabhinetri@dcil.co.in ; दूरभाष : 0891 – 2523250 फैक्स : 0891 - 2560581; वेबसाइट : www.dredge-india.com

दिनांक ३१ दिसम्बर. २०२३ को समाप्त तिमाही संबंधी स्वत: अपरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

क्र. विवरण 31-12-2023 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2022 31-03-2023 सं. को समाप्त तिमाही को समाप्त तिमाही को समाप्त नौमाही को समाप्त नौमाही को समाप्त वर्ष प्रचालनों से कुल आय 26541.76 37131.51 66761.13 82757.59 116479.79 इस अवधि के लिए निवल 2770.55 1420.21 6162.68 2764.77 1383.38 लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पहले) 1383.38 इस अवधि के लिए कर-2770.55 1420.21 6083.27 2764.77 पूर्व निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद) इस अवधि के लिए कर-2722 55 1383 60 2673 83 1255 79 5915 28 पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद) इस अवधि के लिए कुल 2722.55 1383.60 5915.28 2673.83 1518.57 व्यापक आय (इस अवधि के लिए(कर-पश्चात)लाभ/ हानि और अन्य व्यापक आय (कर-पश्चात्)से युक्त) इक्विटी शेयर पूँजी 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 आरक्षितियाँ(पुनर्मूल्यांकित 145084.75 139908.85 139455.99 आरक्षितियों को छौडकर) 142708.85 8 निवल मुल्य 147884.75 142255.99 कार्यशील पूँजी के प्रति 3.49:1 0.21:1 2.04:1 दीर्घकालिक ऋण 10 ऋण साम्या अनुपात 0.30:1 0.27:1 0.20:1 प्रति शेयर आमदनी (ई.पी.एस.) (रुपयों में) 9.72 4.94 21.13 9.55 5.42 (क)मूल (स्र)फीका 9.72 4.94 21.13 9.55 5.42 12 डिबेंचर प्रतिदान आरक्षिति 0.00 3000.00 0.00 १३ न्रिम सेवा कवरेज अनुपात 2.80:1 1.57:1:1 0.90:1 १४ ब्याज सेवा कवरेज अनुपात 10.20:1 11.47:1 8.47:1

1.उपर्युक्त विवरणी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, २०१५ के विनियम ३३ और विनियम ५२ के अंतर्गत शेयर बाजारों के सम्मुख फाइल किए गए, दिनांक ३१ दिसंबर, २०२३ को समाप्त तिमाही संबंधी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है। इसका पूरा प्रपत्र शेयर बाजारों के वेब-साइटों-www.nseindia.com, www.bseindia.com, www.cseindia.com और इस कम्पनी के वेबसाइट www.dredge-india.com में उपलब्ध है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम 2015 के विनियम 52(4) के खंड वाक्य (ए)(बी)(डी) और (ई) में संदर्भित मदों के लिए संगत प्रकटन मुम्बई शेयर बाजार में किए गए हैं और इनको www.bseindia.com पर और इस कम्पनी के वेबसाइट www.dredge-india.com पर मेंडल के आदेश से दशिया गया है। कते डेजिंग कार्पेरेशन ऑफ़ डण्डिया लिमिटेड

स्थान : विशाखपद्रणम दिनांक: 13.02.2024

E0/-कप्तान एस.दिवाकर प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त भार)

यॉर्क एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः डी-6, दीवान श्री अपार्टमेंट्स, 30, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली वेबसाइटः www.yorkexports.in सीआईएनः L74899DL1983PLC015416

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाड़ी और नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

| | | | | | | | | | | (र लाखों में) | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| विवरण | | | एकल | | 7 | | | समेकित | समेकित | | |
| | तिमाई | ो समाप्त | नौ माह समाप्त वर्ष समाप्त | | तिमाही समाप्त | | नौ माह समाप्त | | वर्ष समाप्त | | |
| | | | | | 31.03.2023 (लेखापरीक्षित) | | | 31.12.2023 (अलेखापरीक्षित) | 31.12.2022 (अलेखापरीक्षित) | 31.03.2023 (लेखापरीक्षित) | |
| प्रचालनों से कुल आय | 946.10 | 788.35 | 2950.60 | 3350.08 | 3445.93 | 946.1 | 788.35 | 2950.60 | 3350.08 | 3445.93 | |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) | 14.30 | 26.70 | 112.01 | 166.85 | 108.37 | 14.30 | 26.70 | 112.01 | 166.85 | 108.37 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 44.00 | | ***** | 100.00 | 100.00 | | 40.00 | | | 444.00 | |
| | 14.30 | 26.70 | 112.01 | 166.85 | 108.37 | 6.47 | 40.37 | 114.12 | 186.61 | 114.86 | |
| | | | | | | | | | | | |
| , | 13.30 | 26.70 | 94.01 | 144 85 | 88 37 | 5.47 | 40.37 | 96 12 | 164 61 | 94.86 | |
| | 10.00 | 20.70 | 0 1.01 | 111.00 | 00.01 | 0.11 | 10.07 | 55.12 | 101.01 | 01.00 | |
| असाधारण मदों के बाद) | | | | | | | | | | | |
| अवधि के लिए कुल समग्र आय | 13.30 | 26.70 | 94.01 | 144.85 | 93.86 | 5.47 | 40.37 | 96.12 | 164.61 | 100.35 | |
| [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| , . | 202.22 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 200.00 | 222.02 | 202.00 | 200.00 | 222.22 | 222.22 | |
| , 2 | 336.28 | 336.28 | 336.28 | 336.28 | | 336.28 | 336.28 | 336.28 | 336.28 | 336.28 | |
| आरक्षित (पुनमूल्याकन आरक्षित को | - | - | - | - | 622.06 | - | - | - | - | 1094.42 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0.40 | 0.79 | 2.80 | 4.31 | 2.79 | 0.16 | 1.20 | 2.86 | 4.90 | 2.98 | |
| (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर) | 0.10 | 0.,, | | 1.01 | | "" | 1.20 | | 7.00 | | |
| | अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर पूर्व (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद) कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल] इक्विटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित जुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) अर्जन प्रति इक्विटी शेयर (बेसिक और डायल्यूटेड) | तिमार्ड 31.12.2023 (अलंखापरेश्वित) प्रचालनों से कुल आय अविध के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों से पूर्व) अविध के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर पूर्व (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद) कर पश्चात अविध के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद) अविध के लिए कुल समग्र आय (अविध के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल] इक्विचटी शेयर पूंजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित चुलनपत्र में दशांए अनुसार) अर्जन प्रति इक्विटी शेयर (बेसिक और डायल्यूटेड) 0.40 | तिमाड समाप्त 31.12.2023 (अलेखायरेक्षित) प्रचालनों से कुल आय 946.10 788.35 अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर, विशिष्ट और / या असाधारण मदों से पूर्व) 14.30 26.70 अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर पूर्व (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद) 26.70 कर पर्व (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद) 26.70 कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर प्रचात) में विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद) 33.30 26.70 अवधि के लिए कुल समग्र आय (अलेध के लिए लाम / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल इकिन्दी शेयर पूर्ज 336.28 336.28 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित चुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) अर्जन प्रति इक्विटी शेयर (बेसिक और डायल्यूटेड) 0.40 0.79 | तिमाही समाप्त नौ माह 31.12.2023 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12.203 31.12. | तिमाही समाप्त नौ माह समाप्त अग्ने सार्यक्रिक्त अग्ने सार्यक्र अनुसार्य अग्ने सार्यक्र अग्ने सार्यक्र अग्ने सार्यक्र अग्ने सार्यक्र अनुसार्य अग्ने सार्यक्र अग्न | तिमाही समाप्त नौ माह समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष समाप्त 31.12.2023 31.12.2022 (अलेखापर्शिक्त) (अलेखापर्थिक्त) (अलेखापर्थिक्त) (अलेखापर्या) (अलेखापर्या) (अलेखापर्य) (अलेखापर्य) (| तिमाही समाप्त नी माह समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही वर्ष समाप्त वर्ष पूर्व (विशिष्ट और / या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर पृथ्व समग्र आय असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए सुल समग्र आय (अर्थ के लिए सुल समग्र आय (अर्थ के लिए सुल समग्र आय (अर्थ के लिए लाम / (हानि) (कर प्रचात) शामिल) इिक्टो शेयर पृजी आरक्षि के लिए कुल समग्र आय (कर प्रचात) शामिल) इिक्टो शेयर पृजी आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) अर्जन प्रति इिवटी शेयर (वर्ष के अंखापरीक्षित वर्ग क्षेत्र आपर्थ (वेर्ष के अंखापरीक्ष के स्वापरीक्ष के स्वापरीक् | ित्माही समाप्त नी माह समाप्त वर्ष समाप्त विमाही समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष समाप्त वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष | तिमाही समाप्त नी माह समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त नी माह तिमाही समाप्त नी माह तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त नी माह तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त नी माह नी माह तिमाही समाप्त नी माह नी माह नी माह नी माह नी माह नी माही समाप्त नी माह नी माही समाप्त नी माह नी माही समाप्त नी माप्त नी माही समाप्त नी माही समाप्त नी माही समाप्त नी माही नी माही समाप्त नी | तिमाही समाप्त नी माह समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त नी माह समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त नी माह समाप्त 31.12.2023 31.12.20 | |

1. उपर्युक्त परिणाम सेबी (सूचीबृद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत बीएसई लि. में पेश किए गए समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का एक सार है। समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट

2. एकल और समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2023 की धारा 133 और आईसीएआई द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के सिद्धांतों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

(www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.yorkexports.in पर उपलब्ध है।

3. 31.12.2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए वित्तीय परिणाम एमसीए द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के अनुपालन में हैं। हिते यॉर्क एक्सपोर्ट्स लि.

JBM®

जय भारत मारूति लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 601 हेमकुन्त चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

फोन नः 011-26427104 फैक्स नः 011-26427100 वेबसाइटः www.jbmgroup.com CIN No. L29130DL1987PLC027342 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिये अनंकेक्षित परिणामों का विवरण

| | | | | | | | (रूलाखम) |
|---------------|---|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | एकल | | | | समेकित | |
| क्रम — | विवरण | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| ₹і. | | को समाप्त | को समाप्त | को समाप्त | को समाप्त | को समाप्त | को समाप्त |
| | | तिमाही | नौमाही | तिमाही | तिमाही | नौमाही | तिमाही |
| 1. | प्रचलनों से कुल आय | 54,843.01 | 1,69,577.17 | 53,606.65 | 54,843.01 | 1,69,577.17 | 53,606.65 |
| 2. | अवधि के लिये निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/अथवा | | | | | | |
| | असाधारण मदों से पूर्व) | 1,002.47 | 3,113.69 | 1,060.79 | 1,032.89 | 3,216.25 | 1,071.54 |
| 3. | अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/अथवा | | | | | | |
| | असाधारण मदों के उपरांत) | 1,002.47 | 3,113.69 | 1,060.79 | 1,032.89 | 3,216.25 | 1,071.54 |
| 4. | अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/ | | | | | | |
| | अथवा असाधारण मदों के उपरांत) | 650.26 | 2,023.92 | 663.26 | 671.52 | 2,098.45 | 670.15 |
| 5. | अवधि के लिये समग्र आय {लाम/(हानि) शामिल करते हुए अवधि | | | | | | |
| | के लिए (कर उपरांत) और अन्य समग्र आय (कर उपरांत)} | 645.69 | 2,250.33 | 614.62 | 666.71 | 2,324.15 | 621.29 |
| 6. | सामान्य अंश पूंजी | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | 2,165.00 |
| 7. | आरक्षित पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार | | · | | | | |
| | (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों के अलावा) | 48,499.38 | 48,499.38 | 45,170.38 | 48,644.17 | 48,644.17 | 45,262.16 |
| 8. | प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू 2/-) (वार्षिकृत नहीं) | | | | | | |
| | (जारी और स्थगित प्रचालनों के लिये) नोट- (ख) | | | | | | |
| | क) मूलभूत | 0.60 | 1.87 | 0.61 | 0.62 | 1.94 | 0.62 |
| | ख) मिश्रित | 0.60 | 1.87 | 0.61 | 0.62 | 1.94 | 0.62 |
| $\overline{}$ | | • | | | | | |

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन शेयर बाज़ारों के पास दायर तिमाही 🗸 वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्ना का सार है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्न शेयर बाज़ारों की वेबसाइटों www.nseindia.com और www.bseindia.com, तथा कंपनी की वेबसाइट

ख) कंपनी के निदेशक मंखल ने 08 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रत्येक 5/— रू अंकित मूल्य के पूर्ण भुगतान वाले मौजूदा इक्विटी शेयर के प्रत्येक 2/— रू अंकित मूल्य के पूर्ण मुगतान वाले इक्विटी शेयर में उप—विभाजन करने की सिफारिश की है। उपरोक्त उप—विभाजन का कंपनी के शेयरधारकों ने 18 सितंबर, 2023 को हुई अपनी वार्षिक आम समा में अनुमोदन कर दिया। शेयरों के विमाजन के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर 4,33,00,000/- से बढ़कर, प्रत्येक 2/- रू अंकित मूल्य के साथ, 10,82,50,000/- हो गए हैं। एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की पूर्व की अवधियों के लिए बेसिक और डाइल्यूटिड ईपीएस का इंड ए एस 33 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रत्येक रू 2/- के अंकित मूल्य पर विचार करते हुए पुनः उल्लेख किया गया है।

हस्ता./-एस. के. आर्य

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशंक

स्थान : गुरूग्राम दिनांक : 14 फरवरी, 2024

स्थान : लधियाना दिनांकितः 14.02.2024 (अश्वनी धवन

प्रबंध निदेशक डीआईएन: 00264986 www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते जय भारत मारूति लिमिटेड